

Bargaining for Fruit, CD 6 Track 5

24200 फलों का मोल-तोल

Bargaining for Fruit

<p>दादी: संतरे कैसे दर्जन दिए? *</p>	<p>Grandma: How much is a dozen oranges? * संतरा m orange दर्जन adj dozen दिए preterite of देना</p>
<p>फलवाला: नौ रुपए दर्जन।</p>	<p>Fruit Seller: Nine rupees a dozen.</p>
<p>अँजलि: नौ रुपए तो बहुत ज़्यादा है। कुछ कम करो भाई।</p>	<p>Anjali: Nine rupees is too much. Make it less, Brother.</p>
<p>फलवाला: नहीं बहिनजी, महंगे कहाँ है? बिल्कुल ठीक दाम है।</p>	<p>Fruit Seller: No Sister, how's that expensive? It's exactly the correct price. बिल्कुल ठीक adj absolutely correct</p>
<p>अँजलि: दूसरा वाला तो आठ रुपए दर्जन दे रहा है।</p>	<p>Anjali: The other man is giving eight rupees a dozen.</p>
<p>दादी: चलो, दूसरे वाले के पास चलते हैं।</p>	<p>Grandma: Let's go. We go to the other one.</p>
<p>फलवाला: अच्छा, अच्छा। आठ रुपए लगा दूँगा।</p>	<p>Fruit Seller: Ok, ok. I'll make it eight rupees.</p>
<p>दादी: अच्छा, तीन दर्जन संतरे दे दो। और केले कैसे दिए?</p>	<p>Grandma: Good. Give us three dozen oranges. And how much are the bananas?</p>

फलवाला: पाँच रुपए दर्जन।	Fruit Seller: Five rupees a dozen.
दादी: ठीक है। दो दर्जन दे दो।	Grandma: Right. Give us two dozen.
फलवाला: चौतीस रुपए हुए।	Fruit Seller: That's thirty-four rupees. चौतीस adj thirty-four
दादी दो बीस के नोट पकड़ाती है। **	Grandma hands him two twenty-rupee bills. ** बीस adj twenty
फलवाला: ये आप के छः रुपए वापस।	Fruit Seller: Here's your six rupees back.
दादी: यह पाँच का नोट तो बड़ा गला हुआ है।	Grandma: This five-rupee note is worn out. गलना intr to dissolve, to decay, to rot
फलवाला: चल जाएगा, मेम साहिब।	Fruit Seller: It will work, Madam.
दादी: नहीं, दूसरा वाला दो।	Grandma: No. Give me another one.
आखिर में फलवाला अच्छा वाला नोट निकालता है।	In the end the fruit seller pulls out a good bill. आखिर m end आखिर में in the end
अब सब बस अड्डे पर जाते हैं।	Then they all go to the bus station.

दादा: ठीक समय पर वापस आए तुम लोग।	Grandpa: You guys got back just in time. समय m time
स्टीव: हाँ, बस जाने वाली है। जल्दी चलो।	Steve: Yes, the bus is about to go. Hurry up. जाने वाली about to go; 'the going one'; जल्दी f and adv swiftness, quickness

New Vocabulary Bargaining for Fruit CD 6 Track 5

सज्ञा		Noun
आख़िर	<i>m</i>	end
जल्दी	<i>f and adj</i>	swiftness, quickness
मोल तोल	<i>m</i>	bargaining, haggling, deal
संतरा	<i>m</i>	orange
समय	<i>m</i>	time
क्रियपद		Verb
गलना	<i>intr</i>	to dissolve, to decay, to rot
सज्ञा विशेषण		Adjectives
चौंतीस	<i>adj</i>	thirty four
जल्दी	<i>adj and f</i>	quick, swift, fast
दर्जन	<i>adj</i>	dozen

बिलकुल ठीक	<i>adj</i>	absolutely correct
बीस	<i>adj</i>	twenty
परसर्ग और महावरा	<i>m</i>	Post Positions and Idioms
आखिर में	<i>idiom</i>	in the end
जाने वाली	<i>idiom</i>	about to go